

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 फरवरी 2015—माघ 18, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-287.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम जबलपुर जिला जबलपुर.	महापौर	—	डॉ. श्रीमति स्वाती सदानंद गोडबोले	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक दिलीप दुर्गा पटेल	शिवसेना
3		पार्षद	2	दो केवल कृष्ण आहूजा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन रीना/हृदेश राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार ठाडेश्वर महावर	शिवसेना
6		पार्षद	5	पांच ललिता सिंह	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः संजय तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात संजय राठौड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ प्रिया पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ राजेश सोनकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस इन्द्रजीत कुंवरपाल सिंह (शेरू)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	पार्षद	11	ग्यारह	मंजुला द्वारका मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
13	पार्षद	12	बारह	मनप्रीत सिंह आनन्द (काके)	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	अमर रजक	निर्दलीय	
15	पार्षद	14	चौदह	पूजा कल्लू रजक	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	लोचन साहू	भारतीय जनता पार्टी	
17	पार्षद	16	सोलह	गिरजा नेकराम पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
18	पार्षद	17	सत्रह	अमृता आशीष ज्योतिषी	भारतीय जनता पार्टी	
19	पार्षद	18	अठारह	दिनेश सिंह सिंगरौल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
20	पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति संध्या रूपलाल पटेल	भारतीय जनता पार्टी	
21	पार्षद	20	बीस	सविता संतोष दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
22	पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति सुषमा पटेल	भारतीय जनता पार्टी	
23	पार्षद	22	बाईस	भरत घनघोरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
24	पार्षद	23	तेईस	श्रीमति शगुफ्ता उसमानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
25	पार्षद	24	चौबीस	श्याम कृष्ण (कल्लू) तिवारी	निर्दलीय	
26	पार्षद	25	पच्चीस	अभिषेक यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
27	पार्षद	26	छब्बीस	पूजा सीताराम सेन	निर्दलीय	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	नवीन कुमार रिछारिया	भारतीय जनता पार्टी	
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमति वीणा रजनीश जैन	भारतीय जनता पार्टी	
30	पार्षद	29	उन्तीस	जितिन राज	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
31	पार्षद	30	तीस	बेड़ी पटेल आ. स्व. श्री बुद्धुलाल पटेल.	भारतीय जनता पार्टी	
32	पार्षद	31	इकतीस	श्रीराम शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी	
33	पार्षद	32	बत्तीस	अनामिका अमरीश मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
34	पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमति गीता प्रदीप रजक	भारतीय जनता पार्टी	
35	पार्षद	34	चौंतीस	श्रीमति नेहा अमित जैन	भारतीय जनता पार्टी	
36	पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती ममता समर्थ तिवारी	भारतीय जनता पार्टी	
37	पार्षद	36	छत्तीस	रिजवान अंसारी	भारतीय जनता पार्टी	
38	पार्षद	37	सैंतीस	सुशील शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी	
39	पार्षद	38	अड़तीस	सैयद ताहिर अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
40	पार्षद	39	उन्तालीस	श्रीमती राधा मुरलीधर दुबे	भारतीय जनता पार्टी	
41	पार्षद	40	चालीस	वसीम फिरदोस शफीक अंसारी.	निर्दलीय	
42	पार्षद	41	इकतालीस	लईक अहमद (राजू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
43	पार्षद	42	बयालीस	दुर्गा देवी उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी	
44	पार्षद	43	तैंतालीस	संजय साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
45	पार्षद	44	चवालीस	श्रीमती माया देवी मेवालाल बमनेल.	भारतीय जनता पार्टी	
46	पार्षद	45	पैंतालीस	आरती लोधी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
47	पार्षद	46	छियालीस	रमेश प्रजापति पंकज भैया	भारतीय जनता पार्टी	
48	पार्षद	47	सैंतालीस	राजकुमार कल्लू बाबा	भारतीय जनता पार्टी	
49	पार्षद	48	अड़तालीस	प्रदीप 'मुन्ना बेन'	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
50	पार्षद	49	उनन्वास	गुलाम हुसैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
51	पार्षद	50	पचास	नीतू तेजकुमार भगत	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52	पार्षद	51	इक्यावन	सायमा आजम खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
53	पार्षद	52	बावन	दीपमाला वीरेन्द्र सोनकर	भारतीय जनता पार्टी	
54	पार्षद	53	तिरपन	सत्यवीर जाट (गोलू)	भारतीय जनता पार्टी	
55	पार्षद	54	चौवन	विनय सक्सेना	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
56	पार्षद	55	पचपन	मनोरमा संजय बघेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
57	पार्षद	56	छप्पन	मोहिनी विपिन श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी	
58	पार्षद	57	सत्तावन	महेश सिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी	
59	पार्षद	58	अट्ठावन	धर्मेन्द्र कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
60	पार्षद	59	उनसठ	परवीन कुंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
61	पार्षद	60	साठ	ऋषि कुमार यादव	निर्दलीय	
62	पार्षद	61	इकसठ	प्रदीप यादव	भारतीय जनता पार्टी	
63	पार्षद	62	बासठ	सुमित्रा बाल्मीक	भारतीय जनता पार्टी	
64	पार्षद	63	तिरेसठ	श्रीमती सोना चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	
65	पार्षद	64	चौसठ	श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी	
66	पार्षद	65	पैंसठ	कमलेश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी	
67	पार्षद	66	छियासठ	जसवीन (सनी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
68	पार्षद	67	सड़सठ	रिंकू विज	भारतीय जनता पार्टी	
69	पार्षद	68	अड़सठ	एड. राजेश यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
70	पार्षद	69	उनहत्तर	रेखा सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी	
71	पार्षद	70	सत्तर	डी. पी. कुमरे	भारतीय जनता पार्टी	
72	पार्षद	71	इकहत्तर	राजू पटैल	भारतीय जनता पार्टी	
73	पार्षद	72	बहत्तर	रोकड़ प्रसाद पटैल	भारतीय जनता पार्टी	
74	पार्षद	73	तिहत्तर	रेखा अखिलेश शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी	
75	पार्षद	74	चौहत्तर	श्रीमती कविता यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
76	पार्षद	75	पचहत्तर	गिरीश गोंटिया	भारतीय जनता पार्टी	
77	पार्षद	76	छिहत्तर	श्रीमती शशि श्रीवास	भारतीय जनता पार्टी	
78	पार्षद	77	सतहत्तर	श्रीमती वर्षा रोहित वर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
79	पार्षद	78	अठहत्तर	श्रीमती ज्योति कुरील	भारतीय जनता पार्टी	
80	पार्षद	79	उन्यासी	विनोद चौधरी	निर्दलीय	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( जी.पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.